



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2002/फाल्गुन 20, 1923

No. 118]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2002/PHALGUNA 20, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2002

सं. 22/2002—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 199 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, ये निर्देश देती है कि इसके साथ उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में से प्रत्येक को उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जायेगा।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	8/2001—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001	<p>उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 1 में, स्तंभ (2) में, परंतुक में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—</p> <p>“(खख) शीर्ष सं. 17.02 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जिनके संबंध में उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर उसको आधारों पर लेबल लगाने या पुनः लेबल लगाने और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैकिंग करने या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाया विनिर्माण की कोटि में आयेगा; अध्याय 73 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जिनके संबंध में गालवीनीकरण की प्रक्रिया विनिर्माण की कोटि में आयेगी; अथवा”</p>

(1)	(2)	(3)
2.	9/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001	उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 1 में, स्तंभ (2) में, परंतुक में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— “(कक) शीर्ष सं. 17.02 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जिनके संबंध में उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर उसको आधारों पर लेबल लगाने या पुनः लेबल लगाने और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैकिंग करने या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाया विनिर्माण की कोटि में आयेगा, अध्याय 73 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जिनके संबंध में गाल्वनीकरण की प्रक्रिया विनिर्माण की कोटि में आयेगी; अथवा”

[फा. सं. 334/1/2002-टी. आर. यू. पी.टी. II]

विवेक प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पण :—(1) मूल अधिसूचना सं. 8/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 133 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 11/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 132 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा संशोधन किया गया।

(2) मूल अधिसूचना सं. 9/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2001 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 134 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 11/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 132 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा संशोधन किया गया।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2002

No. 22/2002-CENTRAL EXCISE

**G.S.R.199 (E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely —

TABLE

S No	Notification No and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	8/2001-Central Excise dated the 1st March, 2001	In the said notification, in the Table, against Sl No 1, in column (2), in the proviso, after clause (b), the following shall be inserted, namely,—  “(bb) goods falling under heading No 17 02 of the said First Schedule in relation to which labelling or relabelling of containers and repacking from bulkpacks to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer amounts to manufacture, goods falling under Chapter 73 of the said First Schedule in relation to which the process of galvanization amounts to manufacture, or”
2	9/2001-Central Excise dated the 1st March, 2001	In the said notification, in the Table against Sl No 1, in column (2), in the proviso, after clause (a), the following shall be inserted, namely,—

“(aa) goods falling under heading No. 17.02 of the said First Schedule in relation to which labelling or relabelling of containers and repacking from bulk packs to retail packs or the adoption of any other treatment to render the product marketable to the consumer amounts to manufacture, goods falling under Chapter 73 of the said First Schedule in relation to which the process of galvanization amounts to manufacture; or”

[F. No. 334/1/2002-TRU Pt. II]

VIVEK PRASAD, Under Secy.

**Note:—**(1) The principal notification No. 8/2001-Central Excise dated the 1st March, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 133(E), dated the 1st March, 2001 and was last amended by notification No. 11/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 132 (E), dated the 1st March, 2002.

(2) The principal notification No. 9/2001-Central Excise dated the 1st March, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 134 (E), dated the 1st March, 2001 and was last amended by notification No. 11/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 132 (E) dated the 1st March 2002.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2002

सं. 28/2002-सीमाशुल्क

**सा. का. नि. 200 (अ).—**केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 का, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) प्रारंभिक पैरा में,—

(क) “सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3क की उपधारा 1 के साथ पठित” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर का लोप किया जायेगा;

(ख) उप पैरा (ii) का लोप किया जायेगा;

(ii) सारणी में, शीर्षक “विशेष अतिरिक्त शुल्क दर”, स्तंभ (4), और इस स्तंभ के क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि का लोप किया जायेगा;

(iii) पैरा 2 में, “और विशेष अतिरिक्त शुल्क” शब्द जहां भी हैं, का लोप किया जायेगा;

(iv) पैरा 3 में, “और विशेष अतिरिक्त शुल्क” शब्द का लोप किया जायेगा;

[फा. सं.-341/65/99-टी.आर.यू.]

जी.डी. लोहानी, अधर सचिव

**टिप्पण:—**मूल अधिसूचना 26/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, में [सा. का. नि. 162 (अ), तारीख 28 फरवरी, 1999] द्वारा प्रकाशित हुई थी।

#### NOTIFICATION

New Delhi, 11th March, 2002

No. 28/2002-CUSTOMS

**G. S. R. 200 (E):—**In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with Sub-section (1) of Section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/99-Customs,

dated the 28th February, 1999, namely:—

In the said notification,—

- (i) in the opening paragraph,—
  - (a) the words, brackets, figures and letter “read with Sub-section (1) of Section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)” shall be omitted;
  - (b) sub-paragraph (ii) shall be omitted;
- (ii) in the Table, the heading “Special additional duty rate”, column (4) and the entry occurring against S. No. 1 in that column shall be omitted;
- (iii) in paragraph 2, the words, “and special additional duty”, wherever they occur, shall be omitted;
- (iv) in paragraph 3, the words “and special additional duty”, shall be omitted.

[F.No. 341/65/99-TRU]

G. D. LOHANI, Under Secy.

**Note:—**The principal notification 26/99-Customs dated the 28th February 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* G.S.R. 162(E) dated the 28th February, 1999.